




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 1979/ज्येष्ठ 25, 1901  
No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 1979/JYAISTHA 25, 1901

इस भाग में बिना पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अप्रत्यक्ष कर प्रभाग

नई दिल्ली, 15, जून, 1979

[सं प्रतिप्रदायगी/सां०सू० 44/79]

सार्वजनिक सूचना

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का०सं० 602/2/79-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम संख्या 2629 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
------------	--------------	---------------------

2629	रही तबू, रही सूत अथवा रही बस्त्र से गार्नेटिंग अथवा अन्य किसी प्रक्रिया से प्राप्त किये गये तबूआ से बनाये गये सूत से, जिसमें ऊन सबसे अधिक हो, विनिमित्त कम्बल।	
------	--	--

सूत अन्तर्बस्तु :

(क) ऊरी तून अन्तर्बस्तु (जिसमें शुद्ध ऊन कम्बल का 1.70 से 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो) जो आम- (केवल एक रूप)

तौर पर ऊन की रही (शोडडी) के रूप में जानी जाती है। माल (पैसे) प्रति किलोग्राम।

(ख) रंजक अन्तर्बस्तु, यदि माल रंगा हुआ माल की सूत अन्तर्बस्तु सूत अथवा रंगा हुआ बस्त्र हो। का 0.15 रु० (केवल पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।

यह सार्वजनिक सूचना 18 सितम्बर, 1977 से लागू, और 31 मई, 1979 तक वैध समझी जायेगी।

महेश कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Indirect Taxes Division

New Delhi, 15th June, 1979

[No. DRAWBACK/PN/44-79]

PUBLIC NOTICE

Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in

the public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time:—

For sub-serial No. 2629 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
2629	Blankets which are manufactured from yarn, in which wool predominates, made out of fibres obtained from fibre waste, yarn waste or fabric waste by garneting or by any other process.	
<i>Yarn content—</i>		
(a)	Content of woollen yarn (containing not more than 5% virgin wool) commonly known as shoddy.	Rs. 1.70 (Rupees one and paise seventy only) per kg. of blankets.
(b)	Dye content if the goods are yarn dyed or piece dyed.	Rs. 0.15 (Paise fifteen only) per kg. of the yarn content of the goods.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 18th day of September, 1977 and valid till 31-5-979.

MAHESH KUMAR, Under Secy.

#### राजस्व विभाग

#### (अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 15 जून, 1979

[सख्या प्रतिअदायगी/मा०सू०-45/79]

#### शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र (अवधारण) के भाग 1, खंड (1) में प्रकाशित मासिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/मा०सू०-42/79, दिनांक 1 जून, 1979 में केन्द्रीय सरकार उभमें, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उपक्रमांक 2503 की मद (क) की उपमद (4) में, "प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ में "28.65 रु० (केवल अट्ठाइस रुपये पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम" के स्थान पर "28.85 रु० (केवल अट्ठाइस रुपये पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम" पड़े।

2. उपक्रमांक 2513 की मद (2) में, "प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ में '(क) से (घ)' शब्द के स्थान पर '(क) और (ख)' पड़े।

3. उपक्रमांक 2628 की मद (2) से (5) के सामने 'प्रतिअदायगी की दर' स्तम्भ में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—  
मद सं०

(2) 20 सूत्रांक से अधिक पर 172 पैसे (केवल एक दशमलव बहतर पैसे) प्रति सूत्रांक।

(3) 25 सूत्रांक से अधिक पर 11.5 पैसे (केवल ग्यारह दशमलव पांच पैसे) जमा 4.6 पैसे (केवल चार दशमलव छः पैसे) प्रति सूत्रांक।

(4) 35 सूत्रांक से अधिक पर 57.5 पैसे (केवल सत्तान दशमलव पांच पैसे) जमा 9.2 पैसे (केवल नौ दशमलव दो पैसे) प्रति सूत्रांक।

(5) 15 सूत्रांक से अधिक पर 149.5 पैसे (केवल एक सौ उत्तरांग दशमलव पांच पैसे) जमा 16.1 पैसे (केवल सोलह दशमलव एक पैसे) प्रति सूत्रांक।

(6) 55 सूत्रांक से अधिक पर 313.3 पैसे (केवल तीन सौ तेरा दशमलव तीन पैसे) जमा 6.3 पैसे (केवल छः दशमलव तीन पैसे) प्रति सूत्रांक।

(4) उपक्रमांक 2705 के अन्तर्गत निम्नलिखित टिप्पणी जारी जायेगी :—

"टिप्पणी 'प्रतिअदायगी की दर' 31-8-79 तक मान्य रहेगी।"

(5) उपक्रमांक 2730 की मद (1) की उपमद (द) के सामने 'प्रतिअदायगी की दर' स्तम्भ में '(केवल दो पांच प्रतिशत) शब्दों के स्थान पर '(केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)' पड़े।

(6) उपक्रमांक 2730 में मूल्य विवरण (ब) में मद 'ट' में "प्रचुरता कमीदाकारी" शब्दों के स्थान पर "कमीदाकारी व" पड़े।

(7) उपक्रमांक 3501 के अन्तर्गत परतूक में "कचहड़ मोती अथवा विवाकों" शब्दों के स्थान पर "विवाकों के फलचड़े मोती" पड़े।

(8) उपक्रमांक 3628 के सामने "प्रतिअदायगी दर" स्तम्भ में कोष्ठक में दिये गये शब्दों "(केवल तीन सौ छप्पन रुपये)" के स्थान पर "(केवल तीन सौ पचपन रुपये)" पड़े।

(9) उपक्रमांक 3630 के सामने "प्रतिअदायगी की दर" स्तम्भ में कोष्ठक में दिये गये शब्दों "(केवल चार सौ छियासी रुपये)" के स्थान पर "(केवल चार सौ छियासठ रुपये)" पड़े।

(10) उपक्रमांक 3643 की मद (1) के सामने 'विवरण' स्तम्भ में 'इस्मान की चदरा की पट्टियों से निर्मित' शब्दों के स्थान पर 'सी० आर० इस्मान की चदरा/पट्टियों से निर्मित' पड़े।

(11) उपक्रमांक 3707 के सामने 'प्रतिअदायगी की दर' स्तम्भ में '3805 (ख)' शब्दों के स्थान पर "3805 (ग)" पड़े।

(12) उपक्रमांक 4409 के सामने "विवरण" स्तम्भ में, अन्यत्र अविनिर्दिष्ट शब्द जोड़े।

(13) उपक्रमांक 5002 के अन्तर्गत मद (17) के सामने 'विवरण' स्तम्भ में "स्प्रिंग लीडर एक्सल शाफ्ट" शब्दों के स्थान पर "स्प्रिंग लीडर, एक्सल शाफ्ट" पड़े।

(14) उपक्रमांक 5006 की मद (क) के सामने 'प्रतिअदायगी की दर', स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :—

"683.50 रु० (केवल छः सौ तिरासी रुपये पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।"

(15) उपक्रमांक 5006 की मद (ख) के सामने 'प्रतिअदायगी की दर' स्तम्भ में "3805 (ख)" शब्दों के स्थान पर "3805 (ग)" पड़े।

(16) उपक्रमांक 5302 के सामने 'विवरण' स्तम्भ में "प्रकाशीय ग्लास", के स्थान पर "तेल-सेरा" पड़े।

महेश कुमार, अवर राजस्व

New Delhi, The 15th June, 1979

## No. DRAWBACK/PN-45/79

## CORRIGENDUM

In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-42/79 dated the 1st June, 1979 published in Part I, Section (1) of the Gazette of India, Extra-Ordinary, the Central Government hereby makes the following corrections therein :—

I. In sub-item (IV) of item (A) of sub-serial No. 2503, in the column 'Rate of drawback' for 'Rs. 28.65 (Rupees twenty eight and paise sixty five only) per kg.' *Read* 'Rs. 28.85 (Rupees twenty eight and paise eighty five only)' per kg.

II. In item (2) of sub-serial No. 2513, in the column 'Rate of drawback' for the word '(A) to (D)' *Read* '(A) and (B)'.

III. In the column 'Rate of drawback' against items (ii) to (vi) of sub-serial No. 2628, the following shall be substituted, namely :—

## Item No.

- (ii) Paise 1.72 (Paise one point seventy two only) per count exceeding 20.
- (iii) Paise 11.5 (Paise eleven point five only) plus paise 4.6 (Paise four point six only) per count exceeding 25.
- (iv) Paise 57.5 (Paise fifty seven point five only) plus paise 9.2 (Paise nine point two only) per count exceeding 35.
- (v) Paise 149.5 (Paise one hundred forty nine point five only) plus paise 16.1 (Paise sixteen point one only) per count exceeding 45.
- (vi) Paise 313.3 (Paise three hundred thirteen point three only) plus paise 6.3 (Paise six point three only) per count exceeding 55."

IV. Under the sub-serial No. 2705, the following Note shall be added :—

"Note:—The above rate of drawback is valid upto 31-8-1979."

V. In the column 'Rate of drawback' against sub-item (a) of item (i) of sub-serial No. 2730 for the words '(Two five per cent only)' *Read* '(Two point five per cent only)'.

VI. In statement '(A)' appended to sub-serial No. 2730 in item 'K' for the words 'OR EMBROIDERY' *Read* 'OF EMBROIDERY'.

VII. In the proviso under sub-serial No. 3501, for the words 'Cultured pearls or Biwaco' *Read* 'Cultured pearls of Biwaco'.

VIII. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 3628 for the words in bracket '(Rupees three hundred and fifty six only)', *Read* '(Rupees three hundred and fifty five only)'.

IX. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 3630 for the words in bracket '(Rupees four hundred and forty six only)' *Read* '(Rupees four hundred and sixty six only)'.

X. In the column 'Description' against item (i) of sub-serial No. 3643 for the words 'made out of steel sheets strips' *Read* 'made out of C.R. Steel Sheets/Strips'.

XI. In the column 'Rate of drawback' against sub-serial No. 3707 for the figures '3805(b)' *Read* '3805(c)'.

XII. In the column 'Description' against sub-serial No. 4409 the words 'Not elsewhere specified' may be added.

XIII. In the column 'Description' against item (xvii) under sub-serial No. 5002 for the words "Spring leaves axle shafts" *Read* "Spring leaves, axle shafts".

XIV. In the column 'Rate of drawback' against item (a) of sub-serial No. 5006 for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 683.50 (Rupees six hundred eighty three and paise fifty only) per tonne."

XV. In the column 'Rate of drawback' against item (b) of sub-serial No. 5006 for the figures "3805(b)" *Read* "3805(c)".

XVI. In the column 'Description' against sub-serial No. 5302 for the words 'Optical Glass' *Read* 'Ophthalmic lense'.

MAHESH KUMAR, Under Secy.

